

थिस्सलुनीकियन क दूसरी पत्र

1 पौलुस, सिलवानुस अउर तीमुथियुस क ओर स हमरे परमपिता परमेस्सर अउर पर्भू ईसू मसीह में स्थित थिस्सलुनीकियन क कलीसिया क नाउँ, ²तू सबन क पिता परमेस्सर अउर ईसू मसीह कइँती स अनुग्रह अउर सान्ति मिलइ।

³भाइयो तथा बहिनियो, तू पचन क बरे हमका हमेसा परमेस्सर क धन्यवाद करइ चाही: अइसेन करब उचित बा। काहेकि तू पचन क बिसवासे क अचरज भरा रूप स विकास होत बा अउर तोहमाँ आपस इ मैं पिरेम बढ़त बा। ⁴इही बरे परमेस्सर क कलीसियन मैं हम खुद तू सबन प गरब करित अही। तू पचन क यातना क बीच अउर कस्टन क सहत धैर्यपूर्वक सहन करई तू सबन क बिसवासे क परगट करत ह।

परमेस्सर क निआव क चर्चा

⁵इ एह बाते क स्पष्ट प्रमाण बा कि परमेस्सर क निआव सच्चा बा। ओकर उद्देस इहई बा कि तू पचे परमेस्सर क राज्य मैं प्रवेस करइ योग्य ठहरा। तू सबइ अब उही क बरे तउ कस्ट उठावत अहा। ⁶निश्चय ही परमेस्सर क दिस्टी मैं इ निआव ठीक बा कि तोहे सबन क जउन दुखन देत अहई, ओनका बदले मैं दुख हीं दीन्ह जाइ।

⁷अउर तू जउन कस्ट सहत अहा, ओनका हमरे साथे ओह समइ आराम दीन्ह जाई जब पर्भू ईसू अपने समरथ दूतन क साथे सरग स ⁸धधकत आगी मैं परगट होई। अउर जउन परमेस्सर क नाहीं जनतेन अउर हमरे पर्भू ईसू मसीह क सुसमाचार पर नाहीं चलतेन, ओनका दण्ड दीन्ह जाई। ⁹ओन्हे अनंत बिनास क दण्ड दीन्ह जाई। ओन्हे पर्भू अउर ओनकर महिमा भरी सक्ति क सामने स हटाई दीन्ह जाई। ¹⁰उ अपने पवित्तर लोगन क साथ महिमा प्राप्त करइ आई, अउर अपने आस्चर्यचकित करइ क अभिव्यक्ति करी ओनके बीच जो उन पर बिसवास करत हीं।

¹¹इही बरे हम तोहरे बरे परमेस्सर स हमेसा पराथना करित ह कि हमार परमेस्सर तोहे ओह जीवन क योग्य समझई जेका जिअइ क बरे तोहे सबन क बोलावा गवा बा। अउर उ तोहार सब सुभ इच्छा क प्रबल रूप स पूरा करइ अउर सब ओह कामे क उ सफल बनावइ जउन तोहरे बिसवासे क प्रमाण अहइ। ¹²इही तरह हमर पर्भू

ईसू मसीह क नाउँ तोहरे द्वारा आदर पड़हीं। तू पचे ओकरे द्वारा आदर पउब्या। इ सब कछू हमरे परमेस्सर क अउर पर्भू ईसू क अनुग्रह स होइ।

पर्भू क अवाई स पहिले दुर्घटना घटिहीं

2 भाइयो तथा बहिनियो, अब हम अपने पर्भू ईसू मसीह क फिन स अवाई अउर ओकरे साथे आपस मैं एकट्ट होइ क बारे मैं निवेदन करत अही ²कि तू अचानक अपने विवेके क कउनउ भविस्सबाणी कउनो उपदेस अउर कउनो अइसेन चिट्ट स न खोवा जेको हमरे द्वारा लिखा गवा समझा जात होइ अउर तथाकथित रूप स जेहमाँ बतावा गवा होइ कि पर्भू क दिन आई चुका अहइ, तू अपने मने मैं डावोंडोल जिन हवा। ³तू पचे अपने आपके कउनो क द्वारा कउनउ प्रकार छला न जाइ सका। मई अइसेन एह बरे कहत हउँ काहेकि उ दिन ओह समइ तक न आई जब तक कि परमेस्सर स मुँह मोड़ लेइ क समइ नाहीं आई जात, अउर दुष्ट मनइ परगट नाहीं होइ जात। ओह दुष्ट-मनइ क नियति तउ नरक बा।

⁴उ अपने क सब चीज स उप्पर कही अउर ओनकर विरोध करी अइसेन चीजन का परमेस्सर का कही जात हीं अउर जउन पूजनीय बा। इहाँ तक कि उ परमेस्सर क मंदिर मैं जाइ क सिंहासन पर बइठिके इ दावा करी कि उहइ परमेस्सर बा।

⁵का तोहे याद नाहीं बा कि जब मई तोहरे साथे रहे तउ तोहे इ सब बतावा गवा रहा। ⁶अउर तू तउ अबइ जनतइ अहा कि ओका का अबहीं परगट होइ स रोके अहइ, ताकि उ ऊचित अवसर आए पर ही परगट होइ। ⁷मई अइसेन एह बरे कहत हउँ काहेकि दुष्ट मनइ क रहस्य भरी सक्ती जउन बे व्यवस्था क अहइ अबहुँ आपन काम करत बा। अब केउ ऐका रोक रहा बा अउर उ तब तक ऐका रोकत रही, जब तलक, ओका रोके रखइवाले क रस्ता स हटाई न दीन्ह जाइ। ⁸तबइ उ दुष्ट मनइ परगट होइ जब पर्भू ईसू आपन महिमा मैं फिन परगट होई तब ओका पर्भू ईसू अपने मुँह क फूँक स मार डाईगा अउर अपने उपस्थिति क तेज स ओका भस्म कर देई। ⁹ओह दुष्ट मनइ सइताने क सक्ती स परगट होइ अउर उ बहुत बड़ी सक्ती, झूठे चमत्कारन, अद्भुत चिन्हन अउर अचरजे कारजन, ¹⁰अउर सब

परकार क पाप स भरा छल-परपंच स भरा होइ। उ एनकर उपयोग मनइन क विरुद्ध करी जउन सर्वनासे क रस्ता में खोवा हवा अहई। उ भटक गवा हयेन काहेकि ओन्हन सत्य स पिरेम नाहीं किहे बाटेन, कहुँ ओनकर उद्धार न होइ जाइ। ¹¹इही बरे परमेस्सर ओहमन एक छली सक्ती क काम में कई देई जेहसे उ झूठ में बिसवास करइ लाग रहेन। एहसे ओनकर बिसवास जउन झूठ बा, ओह पर होई। ¹²एहसे उ सभन जे सत्य पर बिसवास नाहीं किहेन अउर झूठ में आनन्द लेत रहेन, दण्ड पढ़हीं।

तोहे छुटकारा क बरे चुना गवा बा

¹³भाइयो तथा बहिनियो, पभू तोहका पियार करत ह। तोहरे पचन क बरे हमका हमेसा परमेस्सर क धन्यवाद करइ चाही काहेकि परमेस्सर तउ आत्मा क द्वारा तोहे सबन क पवित्तर कइक अउर सत्य में तोहरे बिसवास क कारण उद्धार पावइ क बरे तोहे सबन क चुने अहइ। जेन्हन मनइन क उद्धार होइ क बा, तू ओह सबन क पहिली फसल क एक हींसा अहा। ¹⁴अउर इही उद्धार क बरे जेका सुसमाचार क हम तोहे सबन क उपदेस दिहे हई ओकरे द्वारा परमेस्सर तउ तोहे पचन क बोलाएस ताकि तू पचे हमार पभू ईसू मसीह क महिमा क धारण कइ सका। ¹⁵इही बरे भाइयो तथा बहिनियो, अटल बना रहा अउर जउन उपदेस तोहे मौखिक रूप स या हमरे चिट्ठयन क द्वारा दीन्ह गवा रहा, ओका थामे रखा।

¹⁶⁻¹⁷अब हमार पभू खुद ईसू मसीह अउर हमार परमपिता परमेस्सर जे हम पइ आपन पिरेम दसाए अहइ अउर हमका परम प्रोत्साहन प्रदान किहे अहइ अउर जे हमका अपने अनुग्रह में मजबूत आसा प्रदान किहे अहइ तोहरे सबन क हिरदइ क आनन्द देइ अउर सब अच्छी बातन में जेका तू कहत ह या करत ह, तोहे प्रोत्साहित बनावइ।

हमरे बरे पराथना करा

3 भाइयो तथा बहिनियो, तोहे पचन क कछू अउर बात हमका बतावइ क बाटइ। हमरे करे पराथना करा कि पभू क उपदेस तेजी स फइलइ अउर महिमा पावई। जइसेन कि तोहे लोगन क बीच में भवा बा। ²पराथना करा कि हम बुरे अउर दुष्ट मनइन स दूर रही। (काहेकि सभन जने क तउ पभू में बिसवास नाहीं होत ह।) ³मुला पभू तउ बिसवास स भरा अहइ। उ तोहर सक्ती बढाई अउर तोहे सबन क ओह दुष्ट स बचाइ रखी। ⁴हमका पभू में तोहर स्थिति क बारे में दृढ़ बिसवास बा। अउर हमका पूरा निश्चय बा कि हम तोहे

जउन कछू करइ क कहे हई, तू वइसेन ही कइ चुका रहया अउर करत रहब्या। ⁵पभू तोहरे पचन क हिरदइ क परमेस्सर क पिरेम अउर मसीह क धैर्य भरा मजबूती कइती आगे करइ।

करम क अनिवार्यता

⁶भाइयो तथा बहिनियो, अब तोहे सबन क हमार पभू ईसू मसीह क नाउँ में इ हुकुम बा कि तू हर ओह भाइयन स दूर रहा जउन अइसेन जीवन जिअत ह जउन अनुचित चाल चलत अहइ। ⁷मई इ एह बरे कहत हउँ काहेकि तू तउ खुदइ इ जानत बाट्या कि तोहे पचन क हमार अनुकरण कइसे करइ चाही काहेकि तोहरे बीच रहत भए हम कभउँ आलसी नाहीं रहे। ⁸हम बिना मूल चुकाए कीहीउँ स भोजन नाहीं ग्रहण कीन्ह, बल्कि जतन अउर मेहनत करत भए हम दिन रात काम में जुटा रहे ताकि तोहमाँ स कीहीउँ पर बोझ न पड़इ। ⁹अइसा नाहीं अहइ कि हमका तोहसे सहायता लेइ क कउनउ अधिकार नाहीं बाटइ, बल्कि हम एह बरे कड़ी मेहनत करत अही ताकि तू ओकर अनुसरण कइ सका। ¹⁰इही बरे हम जब तोहरे साथे रहे, हम तोहे पचन क इ हुकुम दिहे रहे, "अगर केउ काम न करइ चाहइ तउ उ खाना भी न खाइ।"

¹¹हमका अइसा बतावा गवा ह कि तोहरे बीच कछू अइसेन भी बाटेन जउन अइसेन जीवन जिअत हीं जउन ओनके अनुकूल नाहीं अहइ। उ कउनउ काम नाहीं करतेन, दुसरेन क बातन में टाँग अड़ावत हीं एहर-ओहर घूमत फिरत हीं। ¹²अइसेन लोगन क हम पभू ईसू मसीह क नाउँ प समझावत समझावत हुकुम देत अही कि उ सान्ति क साथे आपन काम करइ अउर अपने कमाई क ही खाना खाई। ¹³मुला भाइयो अउ बहिनियो! जहाँ तक तोहर बात बा, भलाई करत कभउँ न थका।

¹⁴इ चिट्ठी क माध्यम स दीन्ह गए हमरे हुकुमन पर अगर केउ न चलइ त ओह मनई पर नजर रखा कि उ कउन बाटइ अउर ओनकर संगत स दूर रहा ताकि ओका सरम आवइ। ¹⁵मुला ओनके साथे सत्रुअन जइसा व्यवहार न करा बल्कि भाई क समान ओका चेतावा।

चिट्ठी समापन

¹⁶अब सान्ति क पभू खुद तोहे सब समइ, सब तरह स सान्ति देइ। पभू तू सबके साथे रहा।

¹⁷मई पौलुस खुद आपन लिखाई में इ नमस्कार लिखत हउँ। मई एह तरह सब चिट्ठी पर दसखत करत हउँ। मोरी लिखाई क सैली इहइ अहइ।

¹⁸हमार पभू ईसू मसीह क अनुग्रह तोहे सभन पर बना रहइ।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

Order online – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>